

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक्र० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/183

दिनांक - 25/07/2017

प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल में 'सावन मनभावन' का भव्य आयोजन
झिंगुरदा क्षेत्र में सीएसआर कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन
जयंत की समर्पिता महिला समिति ने भी बांटी सिलाई मशीनें

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में रविवार को 'सावन मनभावन' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। एनसीएल के कृति महिला मंडल के सहयोग से कंपनी मुख्यालय स्थित अधिकारी मनोरंजन गृह के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आयोजन किया गया। साथ ही, कृति महिला मंडल की वार्षिक स्मारिका 'संकल्प' के तीसरे अंक का विमोचन भी किया गया। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव श्री सुशील कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती पूनम कुमार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थीं। एनसीएल की प्रथम महिला एवं कृति महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती नीना नाग के मार्गदर्शन में महिला मंडल की टीम ने इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाई।

'सावन मनभावन' कार्यक्रम में कृति महिला मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय, श्रीमती कौशल्या शास्त्री एवं श्रीमती रीता सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थीं। कृति महिला मंडल का निवेदन स्वीकार कर सिंगरौली पधारने के लिए श्रीमती नीना नाग ने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम कुमार का आभार जताया।

श्रीमती पूनम कुमार ने कहा कि सिंगरौली आकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि यदि वे यहां न आतीं तो इतना सुंदर कार्यक्रम देखने को नहीं मिलता। कार्यक्रम में दी गई प्रस्तुतियों को सराहते हुए उन्होंने कहा कि एनसीएल में प्रतिभाशाली महिलाओं की संख्या कम नहीं है।

एनसीएल मुख्यालय की श्रीमती रीना सिंह सावन सुंदरी चुनी गईं। साथ ही, श्रीमती रीता सिंह, श्रीमती संगीता गोस्वामी, श्रीमती किरण कुमार, श्रीमती पिंकी प्रसाद एवं श्रीमती जयश्री मिश्र

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

श्रीमती भाग्यशाली चुनी गई। कार्यक्रम में गृहणियों ने राजस्थानी, संथाली नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। एनसीएल के सभी क्षेत्रों की महिला समितियों की टीमों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

झिंंगुरदा में नवनिर्मित सीएसआर कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण

इससे पहले श्रीमती पूनम कुमार ने रविवार सुबह बतौर मुख्य अतिथि एनसीएल के झिंंगुरदा क्षेत्र में नए बने निगमित सामाजिक विकास (सीएसआर) कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। झिंंगुरदा क्षेत्र अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत आसपास की जरूरतमंद महिलाओं एवं युवतियों को सिलाई-कढ़ाई, स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर शिक्षा की मुफ्त ट्रेनिंग दे रहा है। श्रीमती कुमार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं सभी महिलाओं एवं युवतियों से रुबरु हुईं और उन्हें इन कार्यक्रमों में सीखे गुरों का उपयोग जीविकोपार्जन करने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने एनसीएल के जरूरतमंद लोगों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को भी सराहा।

जयंत में सिलाई मशीन एवं प्रायोगिक सामग्री का वितरण

रविवार को ही एनसीएल के जयंत क्षेत्र की समर्पिता महिला समिति की ओर से स्थानीय जरूरतमंद युवतियों के बीच 05 ऊषा सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। साथ ही, जयंत क्षेत्र की सीएसआर टीम की ओर से स्थानीय ज्योति स्कूल एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जयंत के बच्चों के बीच पठन-पाठन के प्रयोगों (प्रैक्टिकल)की सामग्री वितरित की। इन दोनों ही कार्यक्रमों में श्रीमती पूनम कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि सामग्रियों का वितरण किया।

जनसंपर्क अधिकारी